

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2014 (भाद्रपद 8, 1936)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30—SEPTEMBER 5, 2014 (BHADRA 8, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 12 अगस्त 2014

सं. ए-11017/01/2014-प्रशासन-2—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आलोक में, आयोग कार्यालय में कार्यरत श्री सतीश कुमार, सहायक अधीक्षक (दूरभाष) को एतद्वारा सहायक अधीक्षक (दूरभाष) के स्तरोन्नत पद (साधारण केंद्रीय सेवा, समूह-ख, राजपत्रित, अन-अनुसूचित) [पी.बी.-2, 9,300-34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,600/- सहित] पर दिनांक 29/07/2014 से आगामी आदेशों तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार नायक
अवर सचिव (प्रशासन-2)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 अगस्त 2014

सं. डीपीपर्स.I/2014/0081 /3/13/2013—श्री राजेश कुमार, लोक अभियोजक, केब्यूरो.अ., बीएस एंड एफसी कोलकाता ने नई नियुक्ति अर्थात् पंजाब राज्य में अपर जिला न्यायाधीश के पद का पदभार ग्रहण करने हेतु, अपना त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर दिनांक 02.05.के अपराह्न से लोक अभियोजक 2014, केब्यूरो के पद का.अ. पदभार त्याग दिया है।

मनीष के. सिन्हा
उप निदेशक (प्रशासन)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा
भुवनेश्वर, दिनांक 12 अगस्त 2014

सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/1251—ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/1157 दिनांक 31.07.2014 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 515 दिनांक 31.07.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड - 2 (₹ 9,300—34,800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 5400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	बिश्वनाथ तराई	01.08.2014 पूर्वान्ह

भगवान नायक
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
नागपूर, दिनांक 8 अगस्त 2014

सं. ए: 19011/565/2009 स्था. ए.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्रीमती एस.वाय. शमी, रसायनविज्ञ को भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर में दि. 15.7.2014 (पूर्वान्ह) से वरिष्ठ रसायनविज्ञ के पद पर पदोन्नति की जाती है।

कप्तान एस.एस.चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

संस्कृति मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता - 700016, दिनांक 13 अगस्त 2014

सं. 4-375/2014/स्था.—निदेशक भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अण्डमान एवं निकोबर क्षेत्रीय केन्द्र, पोर्टब्लेयर में संलग्न श्री रफिक हैदर, अनुसंधान सहयोगी (सांस्कृतिक) को सहायक मानव विज्ञानी (सांस्कृतिक), ग्रुप-बी (राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- (पूर्व संशोधित) तदनुसार पे बैंड पीबी-2 (9,300—34,800/-) (संशोधित) ग्रेड पे - रु. 4,600 के पद पर उसी केन्द्र में पूर्वाह्न 13 मार्च, 2014 से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डी. एन. पाण्डेय
कार्यालय अध्यक्ष

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई -400 085 ,दिनांक 2014 जुलाई 30

संदर्भ: पीडी9/(1)/2014-भर्ती-IV/8846—राष्ट्रपतिनिम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे ,
वेतमान तथा नियुक्ति तिथि ,में दर्शाये गये पद 5 से 3 उल्लिखित कॉलममें:आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं,—

क्रम सं	नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान (₹)	नियुक्ति तिथि
1.	डॉ सी. ए. अमरनाथ	वैज्ञानिक अधिकारी - डी	15,600—39,100/- +6,600/- (ग्रेड पे)	20.06.2014 (पूर्वाहन)
2.	डॉ. कृतिवेंटी चन्द्रसेखर राव	वैज्ञानिक अधिकारी - डी	15,600—39,100/- +6,600/- (ग्रेड पे)	16.07.2014 (पूर्वाहन)

एमश्रीधरन .व्ही .
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-85, दिनांक 11 अगस्त 2014

सं. पीडी/6)1/(2014-भर्ती-III/2014/9398—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री सोना राम पुरती, सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए), ए.डी.एम., ईआर., जमशेदपूर को दिनांक 30.07. 2014(पूर्वाहनसे आगामी आदेशों तक (रु.9 ,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.

सहायक कार्मिकअधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 30 जुलाई 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(15)-ब/2014/3803—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती के. एस. विजयलक्ष्मी, सहायक लेखा अधिकारी (पीबी - 2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-), भापाबो, मुंबई को दिनांक. 07.10.2013 के (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड - रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5400 में भारी पानी संयंत्र (बडोदा) में लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के.एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी - III

दिनांक 4 अगस्त 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-म/2014/3888—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री टी वी ए एल् प्रसाद, सहायक (पीबी - 2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), पऊवि, मुंबई को दिनांक. 02.06.2014 के (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक

वेतन ब्रैंड - रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4800 में भारी पानी संयंत्र (मनुगूरु) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के.एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी - III

दिनांक 7 अगस्त 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-ब/2014/3920—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती लथा के., सहायक (पीबी - 2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), बीएआरसी, मुंबई को दिनांक. 30.06.2014 के (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक वेतन ब्रैंड - रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4800 में भारी पानी संयंत्र (बरोदा) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के.एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 8 अगस्त 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(15)-ब/2014/3941—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री रणजीत प्रधान, सहायक लेखाकार, (पीबी - 2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), भारी पानी संयंत्र (कोटा) को दिनांक. 10.06.2014 के (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक वेतन ब्रैंड - रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4800 में भारी पानी संयंत्र (तालचेर) में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के.एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी - III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इंदौर, दिनांक 12 अगस्त 2014

सं. आरआरकेट/प्रशा/2014/भ-805/917—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी:4 ₹ 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन ₹ 8,700/-) को दिनांक 01.07.2014 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी:4 ₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन ₹ 8,900/-) के पद पर राजा रामन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
1	82	श्रीमती के. सी. रत्नकला	यूएचवीटीएस
2	156	श्री तेक्केपाट रघु	पीएचपीएमएस
3	157	श्री श्याम सिंह	पीएसआईएडी
4	238	श्री के. श्रीरामुलु	एएमटीडी
5	246	डॉ. भृगु नाथ सिंह	एलएमपीडी
6	266	श्री ए. कामेश्वर राव	सीएंडएसडी
7	389	श्री राजू जॉन	सीएंडएसडी
8	959	डॉ. क्रिस्त प्रकाश पॉल	एलएमपीडी
9	961	डॉ. प्रणब कुमार मुखोपाध्याय	एसएसएलडी
10	972	श्रीमती गीतिका खरे	सी.डी.
11	1118	डॉ. सुनील वर्मा	एलएमडीडीडी
12	1128	डॉ. मोहम्मद हुसैन मोदी	आयएसयूडी
13	1145	श्री कुतबुद्दीन सैफी	एसीबीडीडी

क्र.सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
14	1182	श्रीमती सीमा सिंघई शेठ	एसीबीडीडी
15	1192	श्री प्रतीक भटनागर	यूएचवीटीएस
16	1201	श्री राजेश्वर सिंह सन्धा	पीएसआईएडी
17	1209	श्री नीतेश तिवारी	आरएफएसडी
18	1227	श्री योगेश केलकर	पीएसआईएडी
19	1254	डॉ. ब्रह्मा नन्द उपाध्याय	एसएसएलडी
20	1296	डॉ. एस. मृणालिनि शर्मा	एलबीएआईडी
21	1305	श्रीमती श्रद्धा तिवारी	एलईएसडी
22	1341	डॉ. अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	आयएसयूडी
23	1523	डॉ. हरनाथ घोष	आयएसयूडी

बी.के.जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

सं ए- 12025/7/2009-स्थापना-2—संघ लोक सेवा आयोग कि सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को नागर विमानन महानिदेशालय में PB-3 रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शायी गई दिनांक से सहायक निदेशक विमान सुरक्षा के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :

1. श्री रुपेंद्र सिंह 24-09-2012 (पूर्वाहन)
 2. श्री जसबीर सिंह लरहगा 17-06-2013 (पूर्वाहन)
2. अधिकारी अपना कार्य ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिविक्षाधीन रहेंगे।

बी के श्रीवास्तव
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते नागर विमानन महानिदेशक

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 11 अगस्त 2014

सं ए- 12025/7/2009-स्थापना-2—संघ लोक सेवा आयोग कि सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को नागर विमानन महानिदेशालय में PB-3 रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शायी गई दिनांक से सहायक निदेशक विमान सुरक्षा के पद पर नियुक्त करते हैं।

1. श्री नारायण विस्लावत 19-03-2013 (पूर्वाहन)
 2. श्री यशपाल 05-04-2013 (पूर्वाहन)
2. अधिकारी अपना कार्य ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिविक्षाधीन रहेंगे।

गोपाल सिंह
उपनिदेशक (प्रशासन)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 14 अगस्त 2014

संख्या : 560(5)/ उ.ख./420—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी:—

Srl No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1.	उत्तरांचल केमिकल्स एंड ड्रग्स इण्डिया प्रा० लि०	U24232UR2004PTC028496	B292036068
2.	हिडेन ट्रेजर्स एंड टोरिज्म प्रा० लि०	U93000UR2012PTC000091	B94752961
3.	साई समर्पण एंड हास्पिटैलिटी सर्विसेज प्रा० लि०	U55204UR2009PTC033041	B96014709
4.	गुरुकिरण पावर एंड इन्फ्राटेक प्रा० लि०	U31908UR2009PTC032935	C00149898
5.	न्यूरोनेट डिजिटल सर्विसेज प्रा० लि०	U72300UR2006PTC032323	C00217224
6.	श्रीपति टाउनशिप एंड बिल्डर्स प्रा० लि०	U45201UR2005PTC029975	B93276004
7.	ट्रान्ससेंड इन्फोटेक प्रा० लि०	U72900UR2004PTC028487	B95643235

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक
उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 14 अगस्त 2014

सं. 560(3)/उ.ख./421—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी:—

Srl No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1.	सतेफार्मा प्रा०लि०	U24232UR2007PTC032415	C09467572
2.	टैलोन फर्मासियूटिकल्स प्रा०लि०	U24232UR2004PTC028337	C08899619
3.	एलिआनस लर्निंग कानसेप्ट्स प्रा०लि०	U74991UR2007PTC032455	C04680005
4.	शिव कृपा इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा० लि०	U45400UR2008PTC032625	C10963056
5.	नवपारस होटलस एंड कन्सट्रक्शन प्रा० लि०	U45201UR2006PTC031409	B97508691
6.	नाईस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्रा० लि०	U10100UR2007PTC032482	C06860936
7.	मुद्रा सिक्वोरिटिज एंड फाइनेंस इण्डिया प्रा० लि०	U65921UR1995PTC017620	C01226794

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक
उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

सं०: 560(5)/2255—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है:—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन संख्या	एस आर एन संख्या
1	मोर्या आयरन एण्ड एलायस लिमिटेड	U27100UP2009PLC037227	C01989946
2	क्लिक टू बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2013PTC060747	C04547402
3	टैक्सपंडित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC052176	C04709739
4	डिक्कन मेडीफार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2009PTC037489	C05335898
5	इनाकी मोल्ड इंजीनियरिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U29295UP2011PTC044085	C05335799
6	कमानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1989PTC010626	C05781570
7	एडमैक्स मल्टीसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2011PTC044621	C05836895
8	एस मोटो इश्योरेंश ब्रोकिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050214	C05839519
9	मच इंफोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2007PTC034208	C05872890
10	स्मार्ट मूव एकेडेमिक इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2009PTC036950	C06043004
11	संत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2008PTC036181	C06237325
12	हवेलेट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC042423	C06507693
13	शार्पस प्राइड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2011PTC044290	C07720105
14	एमड्रीम्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC038935	C07843808
15	पैनग्लोबल मरकन्टाइल्स एण्ड एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC052149	C07965130

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक
उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और 52 कम्पनियों के संबंध में

जयपुर-302001, दिनांक 11 अगस्त 2014

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/940—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :—

क्रम सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
01	028522	रिस्टोर विजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
02	011939	एस. के. शर्मा चिटफण्ड प्राइवेट लिमिटेड
03	020042	एलिकजर लर्न एण्ड अर्न कॉम प्राइवेट लिमिटेड
04	037407	साकार एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड
05	012526	रोशन रेस्टोरेन्ट एण्ड केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड
06	032342	श्री धरनीधर इण्डिया बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
07	021433	ओम शिव लेण्डबेस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
08	023505	केडीके डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
09	025941	अकश्म जेयस ई-टेक प्राईवेट लिमिटेड
10	043299	श्री श्यामजी पोलीपार्स प्राईवेट लिमिटेड
11	027655	शाखम्बरी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
12	034756	कारपोरेट स्टार होटल प्राईवेट लिमिटेड
13	036901	एडकोस रिटेल मार्ट प्राईवेट लिमिटेड
14	041038	रुह एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
15	009261	आई पी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
16	031083	विनायका ईक्यूकोम प्राईवेट लिमिटेड
17	017929	के.डी.के. कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18	002137	कोडस एलोएज प्राईवेट लिमिटेड
19	030129	त्रिम्प मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
20	044277	ग्लैक्सी इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
21	034258	रोनक स्टोन प्राईवेट लिमिटेड
22	036131	विराईज टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
23	030818	लश्करी टाउनशिप प्राईवेट लिमिटेड
24	009532	यूरेशिया डेनिम लिमिटेड
25	026484	सनकोत्रा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
26	034511	सिद्धि विनायक टेडेनअ प्राईवेट लिमिटेड
27	039543	सिक्सथ सेन्स एजुटेक प्राईवेट लिमिटेड
28	034204	सर्वेश्री ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
29	033379	क्वालिटी एनालिटिकल रिसर्च कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
30	027747	स्टार जंक्शन कन्सलटेशन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
31	040320	जय हनुमान लाइम स्टोन प्राईवेट लिमिटेड
32	037628	क्लाउड बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
33	041402	रॉयल ओकेजन्स प्राईवेट लिमिटेड
34	036288	साई टेलेलिंग प्राईवेट लिमिटेड
35	036727	वेलथ एरिना मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
36	006762	जयपुर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
37	042572	रथनाम कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
38	023394	सनहिल ग्राफिक्स एण्ड बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
39	033801	ग्रीन लीफ स्टॉक ब्रोकर प्राईवेट लिमिटेड
40	041273	रिवा इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
41	001649	गुडविल सेविंग्स एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
42	004212	त्रणा फ्रूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43	033740	सनबून रेनवेबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
44	036040	ब्राण्ड इण्डिया हॉस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड
45	042154	नीरू बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
46	032357	ब्राण्ड इण्डिया मास मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
47	007544	महानसरिया एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
48	037735	गुरुलिंग इसबोल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
49	026529	वर्ल्ड मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
50	022560	श्री डाइमेन्सन डिजाईन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
51	004595	जेनेक्स एक्जिम लिमिटेड
52	032049	प्रोक्सीमिटी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दीकी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार एवं सहायक शासकीय समापक
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना-800001, दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. आर.ओ.सी./ पैट/560(5)/एफ.टी.ई.-2011—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा(5) के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया जाता है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्रम	नम्बर	कम्पनी का नाम
1.	U15400JH2009PTC013797	मोहनी मसाला कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	U00304JH2000PTC009426	मिमबेक फर्मा प्राईवेट लिमिटेड
3.	U72900JH2009PTC013894	रेनबो टेली शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	U72100JH2009PTC013624	रेनबो एडुकेशनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
5.	U72200JH2006PTC011982	कनिष्क साफ्टेक एडुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
6.	U74900JH2010PTC014010	सागर कासमिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	U51909JH2008PTC013384	सुरेका एगोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
8.	U21000JH2010PTC014577	रॉकलाइक पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	U85100JH2013PTC001093	सेवा निकेतन क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
10.	U27104JH1990PTC004277	त्रिवेणी मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
11.	U40106JH2011PTC015095	रेवन्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
12.	U29248JH2007PTC012761	रतन इक्वीपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	U72200JH2004PTC010784	अजुबा मल्टीमिडिया सलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	U22100JH2012PTC000801	अन्नया प्रिंट मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	U45200JH2008PTC013251	बनी कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
16.	U45200JH2010PTC014014	सालासर प्रिमियर निवास प्राईवेट लिमिटेड
17.	U14290JH2012PTC000124	डैयर माइन एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
18.	U45200JH2011PTC015103	राइजिम कन्ट्रैक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	U74990JH2010PTC014052	बोकारो डिस्ट्रीबुटर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	U74900JH2010PTC014346	प्राची राज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
21.	U27310JH2010PTC013965	स्वास्तिक फेरो एलायज प्राईवेट लिमिटेड
22.	U45201JH2007PTC012890	विशाल गंगा मल्टी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
23.	U13100JH2012PTC000123	पवनी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	U29268JH2008PTC013311	जमशेदपुर ऑटो कम्पोनेन्ट्स मनुफैक्चरिंग कन्सोर्टिया प्राईवेट लिमिटेड
25.	U29248JH2011PTC015130	ट्रैगल एलायज एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	U74900JH2010PTC013917	विल ट्रस्ट इन्फ्रा वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड

यु.एस. पटोले
कम्पनी रजिस्ट्रार बिहार-सह-शासकीय समापक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 12th August 2014

No. A-11017/01/2014-Admn.II—Pursuant to the approval of Competent Authority Shri Satish Kumar, Assistant Superintendent (Telephones) in the Commission's Office is hereby appointed to the upgraded post of Assistant Superintendent (Telephones) (General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial) in the PB-2 [Rs. 9,300—34,800/-] with Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 29/07/2014.

SURESH KUMAR NAYAK
Under Secy. (Admn. II)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 4th August 2014

No. DPPERS.12014/0081/3/13/2013—Shri Rajesh Kumar, PP, CBI, BS&FC, Kolkata has relinquished the charge of the post of Public Prosecutor, CBI with effect from the afternoon of 02.05.2014 on acceptance of his resignation to join new assignment i.e. Addl. District Judge in the State of Punjab.

MANISH K. SINHA
Dy. Director (Admn.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 12th August 2014

No. Admn.(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.VIII/1251—In pursuance of OOC No. 515 dated 31.07.2014 communicated vide Memo No. Admn. (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.VIII /1157 dated 31.07.2014 the following Asstt. Audit Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date as indicated against him :—

Name of the Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
Sh. Biswanath Tarai	01.08.2014 FN

BHAGABAN NAYAK
Sr. Audit Officer/Admn.

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 8th August 2014

No. A-19011/565/2009-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Smt. S. Y. Shami, Chemist, is promoted to the post of Senior Chemist in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f. 15.7.2014 (F.N.).

S.S. CHAUDHARY
Sr. Administrative Officer
For Controller General

MINISTRY OF CULTURE

(DEPTT. OF CULTURE)

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata – 700016, the 13th August 2014

No. 4-375/2014/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India is pleased to appoint Shri Rafiq Haider, Research Associate (Cultural) attached to the Andaman & Nicobar Regional Centre, Port Blair of this Survey to the post of Assistant Anthropologist (Cultural), Group – B (Gazetted) in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) corresponding Pay Band PB-2 (9,300—34,800/-) with Grade pay of Rs. 4,600/- (revised) at the same station with effect from the forenoon of 13th March, 2014 until further orders.

D.N. PANDEY
Head of Office

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 30th July 2014

No. PD/9(1)/2014-R-IV/8846—The President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the post in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders:—

Sl. No.	Name	Appointed as	Pay Band (Rs.)	Date of Appointment(FN)
1	2	3	4	5
1.	Dr. C. A. Amarnath	Scientific Officer – D	15,600—39,100/-+ 6,600/-(GP)	20.06.2014
2.	Dr. Kruthiventy Chandrasekhar Rao	Scientific Officer – D	15,600—39,100/-+ 6,600/-(GP)	16.07.2014

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

—————
Mumbai - 85, the 11th August 2014

No. PD/6(1)/2014-R-III/2014/9398—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Sona Ram Purty, Assistant Security Officer (A), A.M.D., E.R., Jamshedpur to officiate as Security Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs.4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 30.07.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Asstt. Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 30th July 2014

No. HWB/R/1(15)-B/2014/3803—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. K. S. Vijayalaxmi, Assistant Accounts Officer, Heavy Water Board, Mumbai to officiate as Accounts Officer in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant (Baroda) from the forenoon of 7th October, 2013 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

—————
The 4th August 2014

No. HWB/R/1(8)-M/2014/3888—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri T V A L Prasad, Assistant (Pay Band-2 – Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/-), DAE, Mumbai-400 001 to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 2nd June, 2014 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

The 7th August 2014

No. HWB/R/1(8)-B/2014/3920—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Latha K., Assistant (Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/-), BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Baroda) from the forenoon of 30th June, 2014 until further orders.

K.S. PILLAI

Administrative Officer-III

The 8th August 2014

No. HWB/R/1(15)-B/2014/3941—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Ranjeet Pradhan, Assistant Accountant, Heavy Water Plant (Kota) to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 Rs 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Talcher) from the forenoon of 10th June, 2014 until further orders.

K.S. PILLAI

Administrative Officer-III

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 12th August 2014

No. RRCAT/Admin/2014/R-805/917—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officer/F (PB:4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-) as Scientific Officer/G (PB:4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-) with effect from 01-07-2014 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

Sl.No.	C.C. No.	Name	Division
1	82	Smt. K. C. Ratnakala	UHVTS
2	156	Shri Thekkeppat Reghu	PHPMS
3	157	Shri Shyam Singh	PSIAD
4	238	Shri K. Sreeramulu	AMTD
5	246	Dr. Bhriugu Nath Singh	LMPD
6	266	Shri A. Kameshwar Rao	C&SD
7	389	Shri Raju John	C&SD
8	959	Dr. Christ Prakash Paul	LMPD
9	961	Dr. Pranab Kumar Mukhopadhyay	SSLD
10	972	Smt. GitikaKhare	CD
11	1118	Dr. Sunil Verma	LMDDD
12	1128	Dr. Mohammed H. Modi	ISUD
13	1145	Shri KutbuddinSaifee	ACBDD
14	1182	Smt. Seema Singhai Sheth	ACBDD

Sl. No.	C.C. No.	Name	Division
15	1192	Shri Prateek Bhatnagar	UHVTS
16	1201	Shri Rajeshwar Singh Sandha	PSIAD
17	1209	Shri Nitesh Tiwari	RFSD
18	1227	Shri Yogesh Kelkar	PSIAD
19	1254	Dr. Brahma Nand Upadhyaya	SSLD
20	1296	Dr. S. Mrinalini Sharma	LBAID
21	1305	Smt. Shradha Tiwari	LESD
22	1341	Dr. Arvind Kumar Srivastava	ISUD
23	1523	Dr. Haranath Ghosh	ISUD

B.K. JENA
Chief Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi – 110 003, the 21st October 2013

No. A-12025/7/2009-E.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director of Air Safety in the Civil Aviation Department, in the Scale of Pay of PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against each:—

1. Shri Rupinder Singh 24.09.2012 (Forenoon)
2. Shri Jasbir Singh Larhga 17.06.2013 (Forenoon)

2. Officers will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of their joining.

B. K. SRIVASTAVA
Dy. Director of Administration

New Delhi-110003, the 11th August 2014

No. A-12025/7/2009-E.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director of Air Safety in the Civil Aviation Department, in the Scale of Pay of PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against each:—

1. Shri Narayana Vislavat 19.03.2013 (Forenoon)
2. Shri Yashpal 05.04.2013 (Forenoon)

2. Officers will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of their joining.

GOPAL SINGH
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Kanpur-208002, the 14th August 2014

No.LC/560(5)/UK/420—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved:—

Sr No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	Uttaranchal Chemicals And Drugs India P.Ltd.	U24232UR2004PTC028496	B292036068
2	Hidden Traders and Tourism P.Ltd.	U93000UR2012PTC000091	B94752961
3	Sai Samrpan and Hospitality Services P.Ltd.	U55204UR2009PTC033041	B96014709
4	Guru Kiran Power and Infratech P.Ltd.	U31908UR2009PTC032935	C00149898
5	Nuronet Digital Services P. Ltd.	U72300UR2006PTC032323	C00217224
6	Shripati Township and Builders P. Ltd.	U45201UR2005PTC029975	B93276004
7	Transcend Infotech P.Ltd.	U72900UR2004PTC028487	B95643235

S. P. KUMAR

Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Attached to High Court, Nainital, Uttrakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Kanpur-208002, the 14th August 2014

No. LC/560(3)/UK/421—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved:—

Sl. No.	Name o f the Company	CIN No.	SRN No.
1	Sate Pharma P. Ltd.	U24232UR2007PTC032415	C09467572
2	Talon Phamaceuticals P. Ltd.	U24232UR2004PTC028337	C08899619
3	Alliance Learning Concepts P. Ltd.	U74991UR2007PTC032455	C04680005
4	Shiv Kripa Infraprojects P. Ltd.	U45400UR2008PTC032625	C10963056
5	Navparas Hotels and Construction P. Ltd.	U45201UR2006PTC031409	B97508691
6	Nice Media and Entertainment P. Ltd.	U10100UR2007PTC032482	C06860936
7	Mudra Securities and Finance India P. Ltd.	U65921UR1995PTC017620	C01226794

S. P. KUMAR

Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Attached to High Court, Nainital, Uttrakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Kanpur-208001, the 6th August 2014

No. LC/560(5)/2255—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved:—

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	MOURYA IRON & ALLOYS LIMITED	U27100UP2009PLC037227	C01989946
2	CLICK 2 BUILDCON PRIVATE LIMITED	U70100UP2013PTC060747	C04547402
3	TAXPANDIT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC052176	C04709739
4	DECCAN MEDIPHARMA PRIVATE LIMITED	U24232UP2009PTC037489	C05335898
5	INAGAKI MOLD ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	U29295UP2011PTC044085	C05335799
6	KAMANI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U65910UP1989PTC010626	C05781570
7	ADMAX MULTISERVICES PRIVATE LIMITED	U93000UP2011PTC044621	C05836895
8	YES MOTO INSURANCE BROKING COMAPNY PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050214	C05839519
9	MACH INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED.	U72300UP2007PTC034208	C05872890
10	SMARTMOVE ACADEMIC INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U80904UP2009PTC036950	C06043004
11	SANT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2008PTC036181	C06237325
12	HUELET CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC042423	C06507693
13	SHOPPERS PRIDE TRADING PRIVATE LIMITED	U74999UP2011PTC044290	C07720105
14	AMDREAMS MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC038935	C07843808
15	PANGLOBAL MERCANTILES AND EXIM PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC052149	C07965130

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
U.P. & Uttrakhand

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Jaipur – 302001, the 11th August 2014

No. ROC/JPR/560(5)/940—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

S. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
01	028522	RESTORE VISION MARKETING PRIVATE LIMITED
02	011939	S. K. SHARMA CHITFUND PRIVATE LIMITED
03	020042	ELIXIR LEARN AND EARN COM PRIVATE LIMITED
04	037407	SAAKAAR ASSOCIATE PRIVATE LIMITED

1	2	3
05	012526	ROSHAN RESTAURANT AND CATERERS PRIVATE LIMITED
06	032342	SHRI DHARNIDHAR INDIA BUILDMART PRIVATE LIMITED
07	021433	OM SHIV LANDBASE PRIVATE LIMITED
08	023505	KDK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
09	025941	AKSHYAM JAYS E-TECH PRIVATE LIMITED
10	043299	SHRI SHYAMJI POLYPIPE PRIVATE LIMITED
11	027655	SHAKAMBRI HOTELS PRIVATE LIMITED
12	034756	CORPORATE STAR HOTEL PRIVATE LIMITED
13	036901	ADCOS RETAIL MART PRIVATE LIMITED
14	041038	RUAH EXIM PRIVATE LIMITED
15	009261	I P FINVEST PVT. LTD
16	031083	VINAYAKA EQUICOM BROKERS PRIVATE LIMITED
17	017929	K.D.K. CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
18	002137	KODOS ALLOYS PVT LTD
19	030129	TRIUMPH MINERALS PRIVATE LIMITED
20	044277	GALAXY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
21	034258	RONAK STONE PRIVATE LIMITED
22	036131	VERISE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
23	030818	LASHKARI TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
24	009532	EURASIA DENIM LIMITED
25	026484	SANKOTRA TEXTILES PRIVATE LIMITED
26	034511	SIDDHI VINAYAK TRADENET PRIVATE LIMITED
27	039543	SIXTH SENSE EDUTECH PRIVATE LIMITED
28	034204	SARVSHREE TRADELINK PRIVATE LIMITED
29	033379	QUALITY ANALYTICAL RESEARCH CONSULTANT PRIVATE LIMITED
30	027747	STAR JUNCTION CONSULTATION MARKETING PRIVATE LIMITED
31	040320	JAI HANUMAN LIME STONE PRIVATE LIMITED
32	037628	CLOUD BUILDMART PRIVATE LIMITED
33	041402	ROYAL OCCASIONS PRIVATE LIMITED
34	036288	SAI TELELINK PRIVATE LIMITED
35	036727	WEALTH ARENA MULTITRADE PRIVATE LIMITED
36	006762	JAIPUR EXPORT PRIVATE LIMITED
37	042572	RATHNAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
38	023394	SUNHILL GRAPHICS AND BUILDMART PRIVATE LIMITED
39	033801	GREEN LEAF STOCK BROKER PRIVATE LIMITED
40	041273	REVA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
41	001649	GOODWILL SAVINGS AND FINANCE PVT LTD
42	004212	TRISHNA FRUIT PRODUCTS PRIVATE LIMITED
43	033740	SUNBOON RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED

1	2	3
44	036040	BRAND INDIA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
45	042154	NEERU BUILDMART PRIVATE LIMITED
46	032357	BRAND INDIA MASS MEDIA PRIVATE LIMITED
47	007544	MAHANSARIA EXIM PRIVATE LIMITED
48	037735	GURULINK ISABGOL PRIVATE LIMITED
49	026529	WORD MULTITRADE PRIVATE LIMITED
50	022560	THREE DIMENSION DESIGN SERVICES PRIVATE LIMITED
51	004595	JANEX EXIM LIMITED
52	032049	PROXIMITY INFOTECH PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies-cum-Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Patna, the 25th July 2014

No.ROC/PAT/FTE560/(5)/2011 —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

Sl.No.	Reg. No.	Name of the Company
1	2	3
1	U15400JH2009PTC013797	MOHINI MASALA COMPANY PRIVATE LIMITED
2	U00304JH2000PTC009426	MIMBEC PHARMA PRIVATE LIMITED
3	U72900JH2009PTC013894	RAINBOW TELE SHOPPING PRIVATE LIMITED
4	U72100JH2009PTC013624	RAINBOW EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
5	U72200JH2006PTC011982	KANISHAK SOFTECH EDUCATION PRIVATE LIMITED
6	U74900JH2010PTC014010	SAGAR COSMIC MARKETING PRIVATE LIMITED
7	U51909JH2008PTC013384	SUREKA AGROTRADE PRIVATE LIMITED
8	U21000JH2010PTC014577	ROCKLIKE PACKAGING PRIVATE LIMITED
9	U85100JH2013PTC001093	SEVA NIKETAN CLINIC PRIVATE LIMITED
10	U27104JH1990PTC004277	TRIVENI MACHINERIES PRIVATE LIMITED
11	U40106JH2011PTC015095	REVANTA ENERGY PRIVATE LIMITED
12	U29248JH2007PTC012761	RATAN EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
13	U72200JH2004PTC010784	AJUBAA MULTIMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
14	U22100JH2012PTC000801	ANANYA PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED
15	U45200JH2008PTC013251	BUNNI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
16	U45200JH2010PTC014014	SALASAR PREMIER NIWAS PRIVATE LIMITED
17	U14290JH2012PTC000124	DARE MINE EXIM PRIVATE LIMITED
18	U45200JH2011PTC015103	RISING CONTRACTORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
19	U74990JH2010PTC014052	BOKARO DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED

1	2	3
20	U74900JH2010PTC014346	PRACHI RAJ MARKETING PRIVATE LIMITED
21	U27310JH2010PTC013965	SWASTIK FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED
22	U45201JH2007PTC012890	VISHNU GANGA MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
23	U13100JH2012PTC000123	PAWNI MINERALS PRIVATE LIMITED
24	U29268JH2008PTC013311	JAMSHEDPUR AUTO COMPONENTS MANUFACTURING CONSORTIA PRIVATE LIMITED
25	U29248JH2011PTC015130	TRIANGLE ALLOYS & STEELS PRIVATE LIMITED
26	U74900JH2010PTC013917	WILL TRUST INFRA VENTURE PRIVATE LIMITED

U. S. PATOLE
ROC-cum-OL
Bihar

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in